

Gmail

## Interview of Apprentice Development Officers 2022-2023

1 message

sales.thane <sales.thane@licindia.com>  
To: mayurichable123@gmail.com <mayurichable123@gmail.com>

Tue 6 Jun, 2023 at 6:21 PM

LIC of India-Thane Divisional office

Ref: Interview/ADO Recruitment 22-23

Date: 05.06.2023

Roll No.	2551001752
----------	------------

Shri/Ms. MAYURI VITTHALRAO CHHABILE,  
F1 SURYA WING 2, KHADKI  
AKOLA  
AKOLA-MAHARASHTRA  
PIN : 444001.

Sir/Madam,

### **Re: Recruitment of Apprentice Development Officers- 2022-23**

With reference to the above, we are glad to inform you that you have come out successful in the online test held on 23.04.2023 and you are provisionally called for an interview on **19th June 2023 , 10.00 AM at THANE DIVISIONAL OFFICE** at,

Address :

LIC of India – Thane Divisional Office  
Jeevan Chintamani,  
Near New RTO Office,  
Louis wadi, Eastern Express Highway,  
Thane - 400604

At the time of interview, please bring the duly signed print-out of the online application form, along with the original and attested photocopies of all the relevant certificates, **failing which your**

Signature shall be liable to be rejected.

Kindly note that the original documents are required to ascertain your eligibility for this recruitment. At the time of interview, you must come with the following original certificates, wherever applicable:

1. Degree and other Educational, Technical Qualification Certificates and /or certificate of Fellowship of the Insurance Institute of India, Mumbai .
2. Masters degree certificate in Business administration in Marketing or PG diploma certificate in Marketing from a University .
3. Proof of your Date of Birth, SSC/HSC Mark List.
4. Conduct Certificate from two responsible persons.
5. In case of SC/ST/OBC/EWS Candidates , the latest Community Certificate from the competent authority, who has been designated by the State Government to issue such certificates.
6. In case of OBC candidates, the latest OBC Certificate specifically mentioning that you do not belong to 'Creamy Layer' has to be produced.
7. Certificate regarding Sales Experience (at least 2 yrs. Sales/administrative experience), if available.
8. Discharge certificate in case of Ex-service man.
9. In case of candidates appearing from 'LIC Employees Category', at the time of appearing for Interview, the candidate has to produce a Declaration Form in the attached format only (Form-A) duly signed by the candidate and certified by the Concerned Officer, as mentioned in the Declaration form.
10. In case Candidates appearing from 'LIC Agents Category', at the time of appearing for Interview, the candidate has to produce a Declaration Form in the attached format only (Form-B) duly signed by the candidate and certified by the Concerned Officer, as mentioned in the Declaration form.
11. If you are presently employed, a No Objection Certificate from your present employer should be produced.

SC/ST candidates are entitled for Second Class Railway Fare chargeable by the shortest route from the railway station nearest to their normal place of residence or from which they actually perform the journey whichever is nearer to the place of interview and back to the same station. For road journey between stations not connected by rail, they may be allowed actual bus fare or road mileage at the lowest rate prescribed for employees on administrative side.

**You should be present at the venue one hour before the commencement of the interview.**

**Kindly note that this is only call letter for Interview and not an offer of appointment.**


**"Before coming for the interview please ensure that you are eligible according to the eligibility criteria stipulated in the advertisement notification. If you are not eligible, your candidature will be rejected at any stage of recruitment.**

**Please note that even if you have qualified in the on line examination and subsequently it is found that you do not fulfill the eligibility criteria, your candidature will be rejected and you will not be allowed to appear for the interview".**

that if you do not comply with the above requirements or if you fail to appear for the interview on the given date & time, your candidature will be rejected with immediate effect and no further correspondence shall be entertained in this regard.

**Wishing you success,**

**Yours faithfully,**



**Sr. DIVISIONAL MANAGER.**

**Thane Division.**

"The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for exclusive use of the addressee(s) and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender at LIC OF INDIA or [co\\_mailadmin@licindia.com](mailto:co_mailadmin@licindia.com) immediately and destroy all copies of this message and any attachments. The views expressed in this E-mail message / Attachments, are those of the individual sender."

MUMBAI DIVISION - I

Ref: Interview/ADO Recruitment 22-23

Date: 02.06.2023

2

Roll No.	2691000465
----------	------------

Shri/Ms PUNAM GULABRAO BAKHADE

AT POST TELIPURA

TA BALAPUR

DIST AKOLA

AKOLA MAHARASHTRA 444302.

Sir/Madam,

**Re: Recruitment of Apprentice Development Officers- 2022-23**

With reference to the above, we are glad to inform you that you have come out successful in the online test held on 23.04.2023 and you are provisionally called for an interview on **14th June 2023-01.30 PM** at below mentioned address.

Address : LIC OF INDIA, MUMBAI DIVISION - I,  
YOGAKSHEMA, FIRST FLOOR, EAST WING,  
J. B. MARG, MUMBAI - 400021.

At the time of interview, please bring the duly signed print-out of the online application form, along with the original and attested photocopies of all the relevant certificates, **failing which your candidature shall be liable to be rejected.**

Kindly note that the original documents are required to ascertain your eligibility for this recruitment. At the time of interview, you must come with the following original certificates, wherever applicable:

- Degree and other Educational, Technical Qualification Certificates and /or certificate of Fellowship of the Insurance Institute of India, Mumbai.
- Masters degree certificate in Business administration in Marketing or PG diploma certificate in Marketing from a University.
- Proof of your Date of Birth, SSC/HSC Mark List.
- Conduct Certificate from two responsible persons.
- In case of SC/ST/OBC/EWS Candidates, **the latest Community Certificate** from the competent authority, who has been designated by the State Government to issue such certificates.

- In case of OBC candidates, **the latest OBC Certificate** specifically mentioning that you do not belong to 'Creamy Layer' has to be produced.
- Certificate regarding Sales Experience (at least 2 yrs. Sales/administrative experience), if available.
- **Discharge certificate** in case of Ex-service man.
- In case of candidates appearing from 'LIC Employees Category', at the time of appearing for Interview, the candidate has to produce a Declaration Form in the attached format only (Form-A) duly signed by the candidate and certified by the Concerned Officer, as mentioned in the Declaration form.
- In case Candidates appearing from 'LIC Agents Category', at the time of appearing for Interview, the candidate has to produce a Declaration Form in the attached format only (Form-B) duly signed by the candidate and certified by the Concerned Officer, as mentioned in the Declaration form.



...certificate from your present employer should be produced.

SC/ST candidates are entitled for Second Class Railway Fare chargeable by the shortest route from the railway station nearest to their normal place of residence or from which they actually perform the journey whichever is nearer to the place of interview and back to the same station. For road journey between stations not connected by rail, they may be allowed actual bus fare or road mileage at the lowest rate prescribed for employees on administrative side.

- You should be present at the venue one hour before the commencement of the interview.
- Kindly note that this is only call letter for Interview and not an offer of appointment.
- "Before coming for the interview please ensure that you are eligible according to the eligibility criteria stipulated in the advertisement notification. If you are not eligible, your candidature will be rejected at any stage of recruitment.
- Please note that even if you have qualified in the on line examination and subsequently it is found that you do not fulfill the eligibility criteria, your candidature will be rejected and you will not be allowed to appear for the interview."


Please note that if you do not comply with the above requirements or if you fail to appear for the interview on the given date & time, your candidature will be rejected with immediate effect and no further correspondence shall be entertained in this regard.

Wishing you success,

Yours faithfully,

CALL FOR APPOINTMENT IN RAILWAY SERVICE

BY SPEED POST



प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग,  
उत्तरपति विद्याजी महाराज टर्मिनस,  
मुंबई, मध्य रेल-400001

संख्या: P/CR/HO/EP/110/S/Panel/01-2019/Jr. Clerk

दिनांक: 30.05.2023

SHRI KOTHALE SACHIN SUDHAKAR  
S/O SUDHAKAR RAMBHAU KOTHALE  
AT POST BAMBULGAON  
AKOLA MAHARASHTRA - 444104

**विषय:** ग्रुप सी पद (कैटेगरी संख्या-11) पर नियुक्ति- केन्द्रीय रोजगार संख्या 01/2019 रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई।  
कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, पे मटिक्स तेवत-2 के पद पर मध्य रेलवे में नियुक्ति के संबंध में।

रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई ने आपको मध्य रेलवे में कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, पे मटिक्स तेवत-2 के पद हेतु नियुक्ति के लिए सकारित करने हैं। रेल सेवा में आपको नियुक्ति निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर आधारित होगी। आपको मूल वेतन रु. 19900/- पे मटिक्स लेवल 2 और इसके अतिरिक्त समग्र समय पर लागू अन्य भत्ते भी नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।

1. आपकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होगी और इसे किसी भी समय 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर बिना किसी कारण से स्थगित किया जा सकता है।
2. आपकी नियुक्ति भारत सरकार एवं रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं भर्ती नियमों के तहत होगी।
3. आपकी नियुक्ति एवं स्थानांतरण मध्य रेल के किसी भी स्टेशन पर की जा सकती है, अन्य श्रेणी में बदली करना अनुमेष नहीं है।
4. आपकी नियुक्ति के लिए आपको मध्य रेल के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, छ शिम.ट., मुंबई में दिनांक 08.06.2023 (गुरुवार) को सुबह 10.00 बजे या उस तिथि के पहले, स्वयं के खर्च पर इस कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।
5. नियुक्ति के दौरान आपका साक्ष्यपत्र फार्म (Attestation Form), Police Verification के लिए भेजा जाएगा। नियुक्ति के लिए आपको पूर्ण रूप से 3-5 दिनों तक रहने की तैयारी के साथ मध्य रेल के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, छ शिम.ट., मुंबई में तुरंत उपस्थित होना होगा।
6. रेल नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजिनियर युनिट में भर्ती और प्रादेशिक सेना नियंत्रण या संबन्धित में निर्धारित समय के लिए सेवा देनी होगी।
7. आपकी नियुक्ति पहले दो वर्ष परीक्षा अवधि(Probation Period) पर होगी। यदि आपकी गतिविधियाँ संतोषजनक पायी जाती हैं तो आप सेवा में बने रह सकते हैं। सभी प्रादेशिक नियमों के लिए यह निर्णय अंतिम और अनिवार्य होगा।
8. वह अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 को अथवा इसके बाद हुई है, वह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F(EIII)/2003/PN/138(Amendment) दिनांक 30.12.2003/RBE No. 222/03 के अनुसार रेल सेवा/पैशन/संबन्धित नियम 2003 द्वारा शासित होंगे।
9. आपको सरकारी आवास प्राप्त नहीं होगा और आपको स्वयं ही रहने हेतु व्यवस्था करनी पड़ेगी।
10. प्रमाणपत्र/प्रोबेशन/अतिरिक्त पत्र पूर्ण होने के बाद यदि पद उपलब्ध न हो तो आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. यदि आप इस कार्यालय से बुलाया पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाणपत्र दिये गये तब समय तक प्रस्तुत नहीं कर सके तो आपकी नियुक्ति के प्रति इच्छा नहीं-ऐसा समझा जाएगा और आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यदि आपको शी गयी नियुक्ति पद के प्रति इच्छा नहीं है तो, कृपया इस कार्यालय को इस पत्र के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करें और साथ ही फार्म तथा यात्रा पास यदि हो तो वापस करें।
12. इस पत्र के साथ संलग्न किए गए साक्ष्यपत्र फार्म (Attestation Form) 2 मूल प्रतियों में (2 sets in original) को राजधानी अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना होगा। कृपया ध्यान दें कि यह फार्म (प्रोफार्म) तृतीय श्रेणी में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक है।
13. यदि आप भारत सरकार/असुरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो वर्तमान से ब्यापक देकर उस कार्यालय से आपको धार मुक्त पत्र (Relieving Letter) साथ लाना होगा।
14. आपको नीचे दिये गए सभी मूल प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर इनके द्वारा/अस प्रती के 02 सेट के साथ इस कार्यालय में पैक कराना है।

पाठशाला छोड़ने का प्रमाणपत्र।

- v. यदि आप अनुसूचित जाति/जनजाति पितृता कर्ता या EWS से संबंधित हैं, तो आपको जाति प्रमाणपत्र तथा कानून के अंतर्गत क्रीमी/नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र नियुक्ति के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। (In case of OBC/EWS candidate's current year OBC certificate of Creamy/Non Creamy layer should be submitted at the time of appointment.)
  - vi. एस एस सी/एच एस सी मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र (कक्षा दसवीं एवं बारहवीं)।
  - vii. श्रावक अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र।
  - viii. चरित्र प्रमाणपत्र (Head of Educational Institute last attended by candidate) एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित तथा चरित्र प्रमाणपत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) संलग्न नमूना में 02 प्रतियों में ताना होगा।
  - ix. शैलकुच के प्रशस्ति पत्र यदि है तो।
  - x. अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र जैसे अभियांत्रिकी की डिग्री/डिप्लोमा मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र आदि हो तो।
  - xi. आपको पासपोर्ट आकार के नवीनतम बीस फोटो लाने हैं। (Including photo pasted in as per RRB application)
  - xii. नियुक्ति के समय उम्मीदवार को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की झेरॉक्स प्रति एवं बैंक पासबुक, चेकबुक जिनमें Account No., MICR, IFSC Code No. और बैंक शाखा का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, साथ लाना अनिवार्य है।
  - xiii. नियुक्ति के समय नीला तथा कासा बोल पैन और साथ में स्टेशनरी लाना अनिवार्य है।
15. कृपया ध्यान दें कि यदि ऊपर दिए गए सभी के मूल प्रमाणपत्र और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए झेरॉक्स (02 प्रतियों) में इस कार्यालय से सेवा नहीं कर सके तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
16. आपका जाति प्रमाणपत्र का पूरा सत्यापन होने तक आपकी नियुक्ति अस्थायी होगी। यदि यह जारी होता कि आपका जाति प्रमाणपत्र पधार्थ नहीं हो तो आपकी नियुक्ति बिना किसी कारण दिए भारतीय दंड संहिता आधार पर समाप्त कर दी जाएगी।
17. आपको सरकार के नियमानुसार निष्ठा की एवं संविधान की शपथ लेनी होगी। आपको नियमानुसार विवाह का घोषणापत्र जमा होगा।
18. आपको रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनपी)आई/ 89/एचआर/32(पीएनएम) दिनांक 19.3.1993 के तहत एसीएच 9 और संशोधित आईआईएम 1989 के नियम 303 के अनुसार वरिष्ठता प्रदान कि जाएगी। CEN 01/2010 के पत्र संख्या सं/एम/2010/10000 के तहत एसीएच 9 के नियम 303 के अनुसार वरिष्ठता प्रदान कि जाएगी।

(बी एस रामटेके)

सहायक कार्मिक अधिकारी(टी) अंड सी/प्रशासन

कृते प्रधान मुख्या कार्मिक अधिकारी

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त उल्लेखित कार्यों को स्वीकार करता/करती हूँ कि मैं नियुक्ति पत्र में दिए गए अनुशंगी कार्य को पूर्ण करूँगा/करूँगी।

उम्मीदवार का नाम.....  
उम्मीदवार का हस्ताक्षर.....  
दिनांक.....

नोट: उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्ति के समय नवीं पंजाब योजना पर आधारित फार्म को भरना अनिवार्य है।  
संलग्न फार्म, चरित्र प्रमाणपत्र, 2-कॉपी फार्म, बर्धो-राटा फार्म, परिवार घोषणा पत्र, गृह नगर घोषणा पत्र, मिहल (यदि लागू) आदि (NPS 953)।

CENTRAL RAILWAY

TRAVELLING AUTHORITY

Please allow the bearer of this letter SHRI KOTHALE SACHIN SUDHAKAR travel by train in 2nd Class from nearest station from the residence of the candidate to CSMT, Mumbai, direct from to

(बी एस रामटेके)

सहायक कार्मिक अधिकारी(टी) अंड सी/प्रशासन

कृते प्रधान मुख्या कार्मिक अधिकारी



बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

BOI



मुंबई उत्तर अंचल : बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग, दूसरी गॉजल, नटराज मार्केट के सामने, एस. व्ही. रोड, मलाड (प.), मुंबई - 400 064. • फोन : 2882 7771 / 2882 5591  
MUMBAI NORTH ZONE : Bank of India Bldg., 2nd Floor, Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (W), Mumbai - 400 064. • Phone : 2882 7771 / 2882 5591

Ref. No. MNZ:HRD:SS: 000210

Date: 10.05.2023

सेवा में, To.

श्री/श्रीमती/कुमारी Shri/Smt./Kum. BALRAJ BABULAL KHURANIA  
S6 VIJAY HEIGHT,  
BIRLA GATE NO 1,  
RAMDASPETHAKOLA,  
MAHARASHTRA 444005.

विषय : हमारी बैंक में लिपिक के पद हेतु आपका चयन, सीडब्ल्यूई क्लर्क XII के  
अन्तर्गत दिनांकित 01.07.2022 की आईबीपीएस सूचना  
Re. : Your selection in our Bank for the post of Clerk  
IBPS Notice dated 01.07.2022 under CRP Clerk XII

हम आपको सहर्ष सूचित करते हैं कि आपका चयन हमारे बैंक में लिपिकीय संवर्ग के पद पर किया गया है।  
यह चयन आपके द्वारा केंद्र सरकार के प्रारूप में जाति प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, आयु प्रमाण पत्र  
आदि के रूप में संतोषजनक प्रमाण की प्रस्तुति की शर्त के अधीन है। आपको एतद्वारा अनुदेश दिया जाता है  
कि आप भर्तीपूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दि- 9.30 बजे हमारे कार्यालय में रिपोर्ट करें।

We are pleased to inform you that you have been selected for the post of  
**Clerical cadre** in our Bank subject to submission of satisfactory proof of eligibility like  
Caste Certificate in Central Government format, Mark Sheets/Certificates of educational  
qualifications, Age, medical fitness etc. You are hereby instructed to report to our office  
on **15.05.2023** at **9.30 a.m.** to complete pre-recruitment formalities:-

1. चिकित्सा परीक्षा - कृपया चिकित्सा परीक्षा के लिए ₹1500/- नकद साथ लाएं और इसकी  
रसीद भी प्राप्त करें। कृपया नोट करें कि आपका चयन बैंक नौकरी के लिए बिना शर्त चिकित्सीय रूप से  
ठीक पाये जाने के अधीन है।

Medical Examination - Please carry cash of Rs.1500/- for medical examination  
and obtain receipt for the same. Please note that your selection is subject to  
your being found unconditionally medically fit for Bank job.

2. आपको इनमें से तीन संतोषजनक चरित्र प्रमाण पत्र लाने होंगे :
  - i. अंतिम कॉलेज के प्रधानाचार्य/कॉलेज/विश्वविद्यालय के विभाग-प्रमुख
  - ii. राजपत्रित अधिकारी या बैंक अधिकारी
  - iii. वर्तमान नियुक्ता, यदि कोई हो
  - iv. सम्माननीय व्यक्ति जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हैं।



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी ब्लॉक", बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.  
Head Office : Star House, C-5, "G Block", Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.



You should bring three satisfactory character certificates, either from:

- i. Principal of College/ Head of Department of College/ University last attended
- ii. Gazetted Officer/s or Bank Officer/s
- iii. Present Employer, if any
- iv. Respectable person/s who is not related to the candidate

3. आपके चरित्र और पूर्ववृत्तों का पुलिस सत्यापन – आपको पूर्ववृत्त फॉर्म तीन प्रतियाँ (भरना होगा जिसे, आपके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाना है। आपको, बैंक के द्वारा दिये गए प्रारूप के अनुरूप स्टेपयुक्त शपथ पत्र-सह-वचन पत्र देना होगा। कृपया नोट करें कि, बैंक में आपका सेवाग्रहण/स्वायीकरण आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्तों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से संतोषजनक रिपोर्ट की प्राप्ति की शर्त के अधीन है।

Police Verification of your character and antecedents – You will have to fill in Antecedent form (in Triplicate) to be sent to police authorities for verification of your character and antecedents. You will give a stamped Affidavit-cum-Undertaking as per format provided by the Bank. Your joining / confirmation in the Bank is subject to receiving satisfactory report about your character and antecedents from Police authorities, which please note.

4. आपको अपने समस्त मूल प्रमाणपत्र लाने होंगे जैसे :

- i. लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र / CRP XII वैद्य स्नोर कार्ड
- ii. पहचान प्रमाण और फोटोग्राफ
- iii. बैंक की स्वीकार्य जन्म-तिथि प्रमाणपत्र
- iv. यदि अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से सम्बन्धित है तो जाति प्रमाणपत्र में एक विशेष खंड सम्मिलित होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग से संबद्ध नहीं है जिसे भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभ उपलब्ध नहीं हैं। नॉन क्रीमी लेयर खंड युक्त ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 01.04.2022 से 31.03.2023 के बीच का जारी किया हुआ होना चाहिए। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केन्द्र सरकारी की सूची/अधिसूचना से अक्षर से अक्षर मिलना चाहिए।

ओबीसी वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत आते हों और/या यदि उनकी जाति केन्द्रीय सूची में उल्लेखित नहीं है, तो ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

ई. डब्ल्यू.एस. संवर्ग (EWS) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कति भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में, आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित आय से संबंधित होना चाहिए।



बैंक के द्वारा निर्धारित आपकी योग्यता स्थापित करने हेतु, शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता प्रमाणपत्र, अंकसूची इत्यादि के मूल दस्तावेज़।

- v. वर्तमान नियोक्ता से एनओसी - अग्यर्थी जो कि सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल) में कार्यरत हैं, को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अनापत्ति प्रमाणपत्र किसी विशेष प्रतिभागी संगठन में चयन हेतु जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आम भर्ती प्रक्रिया सभी प्रतिभागी संगठनों के लिए है।

You have to bring all original certificates i.e.

- i) Call Letter for Written Examination / CRP XII valid Score Card
- ii) Identity proof and photographs
- iii) Date of Birth Certificate acceptable to the bank,
- iv) In case of candidates belonging to OBC category, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to creamy layer section excluded from the benefits of reservation for Other Backward Classes in Civil post & services under Government of India. OBC caste certificate containing the Non-creamy layer clause should be issued between 01.04.2022 to 31.03.2023. Caste Name mentioned in certificate should tally letter by letter with Central Government list/notification. **Candidates belonging to OBC category but coming under creamy layer and/or if their caste does not find place in the Central List are not entitled to OBC reservation.** In case of candidates belonging to EWS category, Income and Asset Certificate issued by any one of the Authorities as notified by the Government of India in the prescribed format, the Income & Asset Certificate should be related to income pertaining to Financial Year 2021-22.
- v) Educational and professional qualification certificates, testimonials, mark sheets etc., in original, for verification to establish your eligibility prescribed by the Bank.
- vi) NOC from present employer - Candidates serving in Government / quasi Government offices/ Public Sector Undertakings (Including Nationalised Banks and Financial Institutions) are required to produce a "No Objection Certificate" from their employer. The No Objection Certificate should not be issued for selection in any particular participating organization as the Common Recruitment Process is for all participating organisations.



5. पिछले नियोक्ता और रेफरी से रेफरी रिपोर्ट, यदि कोई हो -

- i. आपके चरित्र और पूर्ववृत्तों के बारे में संतोषजनक विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको रेफरी के तौर पर दो व्यक्तियों के नाम और पता देने होंगे।
- ii. इसके अतिरिक्त यदि आप किसी कारोबार/संस्था वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या कार्य कर रहे थे तब हम आपके वर्तमान नियोक्ता और सभी पिछले नियोक्ताओं, यदि कोई हो, से आपके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। कृपया ऐसे सभी नियोक्ताओं के नाम और पूरा पता दें।
- iii. आपको अपनी स्वयं की जानकारी जैसे पत्रव्यवहार के लिए पता और टेलीफोन मोबाइल ईमेल पता और साथही रेफरी की भी प्रस्तुत करना होगा और आपकी रेफरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमें रिपोर्ट की नमूना प्रारूप को भेजने में नियोक्ता सक्षम हो।

Referee reports from referees and previous employers, if any.

- i) You should furnish name and address of two persons as referees for obtaining satisfactory confidential report about your character and antecedents.
  - ii) In addition to that, if you are working or were working with any concern/institution, then we will obtain satisfactory confidential report about your character and antecedent from present Employer and all previous employers, if applicable. Please give name and full address of all such employers
  - iii) You should furnish the details of yourself i.e. present address for correspondence and telephone/mobile/email address and also of the referees and employers to enable us to send specimen formats of the reports to them for obtaining your referee reports.
2. कृपया नोट करें कि बैंक में आपकी नियुक्ति और तत्पश्चात स्थायीकरण, चिकित्सा की दृष्टि से आपका पूरी तरह से एवं बिना शर्त के स्वस्थ पाये जाने, राज्य की स्थानीय भाषा में प्रवीण पाए जाने, आपके रेफरीस से संतोष जनक रेफरी रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और पिछले नियोक्ता] यदि कोई ( से रिपोर्ट तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने की शर्त के अन्वयधीन है।

Your appointment and confirmation thereafter in the Bank is subject to your being found fully and unconditionally medically fit, proficient in local language of the State, receiving satisfactory referee reports from your referees, police verification report and previous employers (if any) and Caste Certificate Verification Report for reserved category candidates, which please note.





7. You are also advised that before reporting to your place of posting, you are required to complete E-learning modules available on our Bank's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) → "Careers" → "E-learning Modules for newly joined staff". For login, your credentials will be as under :

User ID : IBPS Roll No.  
Password : Your mobile No. as registered with IBPS  
Security Question : Your Email ID as registered with IBPS

8. बर्तीपूर्व औपचारिकताएं सफलतापूर्वक पूरा करने पर बैंक आपकी, तैनाती-स्थल संबंधित ऑफर-सट-निष्पत्ति पत्र जारी करेगा।

On successful completion of all the pre-recruitment formalities, Bank will issue necessary Offer-cum-Appointment letter with place of posting to you.


9. कृपया महत्वपूर्ण रूप से नोट करें कि आपकी सेवा संबंधित सूचना के साथ समाप्त की जा सकती है, यदि आपकी निष्पत्ति के बाद कभी भी यह पता चलता है कि:

- क. आपके द्वारा दी गई जानकारी और प्रस्तुत विवरण असंगत, गलत या झूठे हैं।
- ख. बैंक के द्वारा मॉगी गवी कोर्दे भी जानकारी, को आपके द्वारा जानबूझ कर छिपाई गई होगी।
- ग. यदि नियोजक/रेफरी/पुलिस/बाति स्थापित रिपोर्ट प्रतिकूल/असंतोषजनक पानी जाती है।
- घ. यदि यह पता चलता है कि आपने भर्ती/चयन प्रक्रिया में अनुचित साधनों का सहारा लिया था।
- ङ. किसी सरकारी एजेंसी/न्यायालय से बैंक को कोर्दे प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है।

Please importantly note that your services are liable to be terminated with appropriate notice, if it is revealed at any time after your appointment that:

- (a) the information given and the particulars furnished by you are materially incorrect or false;
- (b) any particulars called for by the Bank are willfully suppressed by you;
- (c) if the Employer / Referee / Police / Caste verification report are found to be adverse / not satisfactory;
- (d) if it is revealed that you had resorted to unfair means in the selection/ recruitment process;
- (e) Any adverse information is received by the Bank from Court of Law/ any Government agency;



  
(AMRENDRA KUMAR)  
अंशुमंडल-प्रबंधक Zonal Manager  
Mumbai North अंचल Zone

BY SPEED POST-AD

Central Railway

No. AC/212-3/Admn/DR/JAA-Typ/2023/215

PFA's office  
CSMT Mumbai  
Date - 28-03-2023IRSHAD KHAN ILYAS KHAN  
CHANBNAMA NAGAR  
KHAIR MOHAMMAD PLOT  
AKOLA - 444002  
AKOLA - MAHARASHTRASub Appointment as Jr. Accounts Assistant cum Typist in Accounts Department.  
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

In response to your application to the Railway Recruitment Board, Mumbai Central, you are hereby offered employment as Jr. Accounts Assistant cum Typist in VII PC Pay Matrix Level-5 with basic pay Rs. 29200/- plus other allowances as admissible under extant rules in Accounts Department of this Railway.

Your appointment is subject to the acceptance of the following terms and conditions by you-----

1. You will initially be appointed on probation for a period of two years. During the probation period you will have to undergo the initial training for a period of 32 working days at ZRTI and pass the initial training examination which will be held immediately after the completion of the course.
2. You will have to pass Departmental examination prescribed in Appendix II of Indian Railway Establishment Manual within a period of 3 (three) years and in maximum two chances from the date of your appointment. On failure to pass the said Appendix II (IREM) examination within the specified period, your services are liable to be terminated on 14 days notice. You will be allowed to appear for this examination only on successful completion of initial training examination as mentioned in (1) above.
3. In case any certificate, mark sheet submitted by you found to be false / forged, your services will be terminated without assigning any further reason and action under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake certificates will be initiated.
4. The appointment is provisional and subject to the Caste/Tribe/Community Certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class (Non Creamy Layer) as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
5. You will be governed by National Pension System. The existing Railway Service (pension) Rules, 1993 including Commutation of Pension Rules and Extraordinary Pension Rules, and State Railway Provident Fund Rules as contained in Indian Railway Establishment Code Vol. I (1985 Ed.) 1995 Reprint shall not be applicable to you.
6. The appointment offered to you is purely temporary and your service is liable for termination on 14 days notice when not required by Administration.
7. You are liable to be posted/transferred to any station on Central Railway and no assurance of Railway accommodation can be given.
8. You will have to take an oath of allegiance to India and to the Constitution of India.
9. All rules and regulations applicable to Government/Railway Employees will be binding on you.

10. You should submit ten recent passport size photographs and One set photocopies of following documents attested by gazetted officer alongwith the originals on the date of your reporting to this office

- a. School Leaving Certificate or Secondary School Certificate containing the date of birth
- b. SSC, HSC and Degree certificate and relevant mark sheets.
- c. Caste certificate if you belong to SC/ST/OBC communities
- d. Character certificate in the enclosed proforma signed by the Principal of the last college attended by you
- e. Character certificate in the enclosed proforma signed by the gazetted officer other than college principal.
- f. Disability certificate in the prescribed format duly bearing seal and signature of issuing Competent Authority in case of PWD candidate.
- g. PAN Card
- h. Aadhar Card

11. You should submit details of your Bank Name and Address, Bank Account Number, MICR Number and IFSC Number (11 digit) and photo copies of first page of Pass Book and cancelled cheques etc.


12. If you are already employed in Govt./Semi Govt. office, then you should bring No Objection Certificate from your employer.

13. Transfer of staff to other divisional and unit offices of this Department on this Railway are arranged strictly as per the registration of applications for such transfers and no transfer on out of turn basis for any reason shall be considered. You will however not be allowed to apply for such inter Divisional transfer before completion of six months of service. Any attempt of Minister/MP/MLA references for transfers to place of choice will be viewed seriously and action will be taken under extant Discipline & Appeal rules.

14. If the above terms and conditions are acceptable, you are directed to report to this office along with this letter on **21-04-2023** on **11:30** hrs. sharp as hourly slots have been allotted to a batch of candidates to avoid rush. The date and time mentioned in the letter may strictly be adhered to.

- a. In case you are unable to accept the above offer, you should intimate this office at once returning the appointment letter by post and through email at [srafa.admn1@gmail.com](mailto:srafa.admn1@gmail.com). The offer will be treated as cancelled on failure to report or intimate to this office and no further correspondence will be entertained in the matter.

DA: As above

  
Sr AFA (Admn)  
/PFA

To  
Sr Assistant Financial Adviser (Admn)  
Principal Financial Adviser's office, 3<sup>rd</sup> floor,  
New Administrative Building, Central Railway  
Mumbai, CSMT, Pin- 400001

I agree to accept the above terms and conditions of appointment.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



BY SPEED POST-AD

Central Railway

No. AC/212-3/Admn/DR/JAA-Typ/2023/314

PFA's office  
CSMT Mumbai.  
Date:- 28-03-2023

ASHISH BALKRUSHNA WANKHADE  
NEAR REST HOUSE  
RAM NAGAR  
PATUR - 444501  
AKOLA - MAHARASHTRA

Sub: Appointment as Jr. Accounts Assistant cum Typist in Accounts Department.  
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

In response to your application to the Railway Recruitment Board, Mumbai Central, you are hereby offered employment as Jr. Accounts Assistant cum Typist in VII PC Pay Matrix Level-5 with Basic pay Rs.29200/-plus other allowances as admissible under extant rules in Accounts Department of this Railway.

Your appointment is subject to the acceptance of the following terms and conditions by you----

1. You will initially be appointed on probation for a period of two years. During the probation period you will have to undergo the initial training for a period of 32 working days at ZRTI and pass the initial training examination which will be held immediately after the completion of the course.
2. You will have to pass Departmental examination prescribed in Appendix II of Indian Railway Establishment Manual within a period of 3 (three) years and in maximum two chances from the date of your appointment. On failure to pass the said Appendix II (IREM) examination within the specified period, your services are liable to be terminated on 14 days notice. You will be allowed to appear for this examination only on successful completion of initial training examination as mentioned in (1) above.
3. In case any certificate, mark sheet submitted by you found to be false / forged, your services will be terminated without assigning any further reason and action under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake certificates will be initiated.
4. The appointment is provisional and subject to the Caste/Tribe/Community Certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class(Non Creamy Layer) as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
5. You will be governed by National Pension System. The existing Railway Service (pension) Rules, 1993 including Commutation of Pension Rules and Extraordinary Pension Rules, and State Railway Provident Fund Rules as contained in Indian Railway Establishment Code Vol. I (1985 Ed.)1995 Reprint shall not be applicable to you.
6. The appointment offered to you is purely temporary and your service is liable for termination on 14 days notice when not required by Administration.
7. You are liable to be posted/transferred to any station on Central Railway and no assurance of Railway accommodation can be given.
8. You will have to take an oath of allegiance to India and to the Constitution of India.
9. All rules and regulations applicable to Government/Railway Employees will be binding on you.

10. You should submit ten recent passport size photographs and One set photocopies of following documents attested by gazetted officer alongwith the originals on the date of your reporting to this office.

- a. School Leaving Certificate or Secondary School Certificate containing the date of birth.
- b. SSC, HSC and Degree certificate and relevant mark sheets.
- c. Caste certificate if you belong to SC/ST/OBC communities.
- d. Character certificate in the enclosed proforma signed by the Principal of the last college attended by you.
- e. Character certificate in the enclosed proforma signed by the gazetted officer other than college principal.
- f. Disability certificate in the prescribed format duly bearing seal and signature of issuing Competent Authority in case of PWD candidate.
- g. PAN Card
- h. Aadhar Card.

11. You should submit details of your Bank Name and Address, Bank Account Number, MICR Number and IFSC Number (11 digit) and photo copies of first page of Pass Book and cancelled cheque etc.


12. If you are already employed in Govt./Semi Govt. office, then you should bring No Objection Certificate from your employer.

13. Transfer of staff to other divisional and unit offices of this Department on this Railway are arranged strictly as per the registration of applications for such transfers and no transfer on out of turn basis for any reason shall be considered. You will however not be allowed to apply for such Inter Divisional transfer before completion of six months of service. Any attempt of Minister/MP/MLA references for transfers to place of choice will be viewed seriously and action will be taken under extant Discipline & Appeal rules.

14. If the above terms and conditions are acceptable, you are directed to report to this office along with this letter on 26-04-2023 on 13:00 hrs sharp as hourly slots have been allotted to a batch of candidates to avoid rush. The date and time mentioned in the letter may strictly be adhered to.

- a. In case you are unable to accept the above offer, you should intimate this office at once returning the appointment letter by post and through email at [srafa.admn1@gmail.com](mailto:srafa.admn1@gmail.com). The offer will be treated as cancelled on failure to report or intimate to this office and no further correspondence will be entertained in the matter.

DA: As above.

  
Sr. AFA (Admn)  
/PFA

To,  
Sr Assistant Financial Adviser (Admn)  
Principal Financial Adviser's office, 3<sup>rd</sup> floor,  
New Administrative Building, Central Railway  
Mumbai CSMT, Pin- 400001

I agree to accept the above terms and conditions of appointment.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

AI AIRPORT SERVICES LIMITED

(Formerly known as AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED)  
Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, GSD Building, Air India Complex, Terminal-2, IGI Airport, New Delhi-110037, India  
CIN : U63090DL2003PLC120790

Ref. No.: AIASL/REC- FEB 2023/BO

Date - 23/02/2023

To,  
Name - Vaibhav J Sadanshiv  
Station - Mumbai  
Mobile No -

Dear Sir/Madam,

**Sub: Recruitment for the post of "Customer Service Executive"**

With reference to your application for the post of Customer Service Executive in AIASL, and your further consent by way of appearing for and Personal Interview, we have pleasure in offering you the said post in AI Airport Services Limited at Mumbai on Fixed Term Contract basis on Rs.21,300/- p.m. on the following terms and conditions. The place of your deployment will be communicated to you later.

1. You will be required to execute and sign the Contract. You will be governed by the terms and conditions mentioned in the said contract.
2. In case you are in employment elsewhere, you will not be allowed to claim the protection of your pay, which you were drawing in your previous Organization. Obviously, there will not be any re-fixation of your salary on the basis of the salary last drawn by you in your earlier Organization.
3. You may be required to serve in the Company at any of its stations, in India as per the requirements of this Company.
4. For Scheduled Castes candidates only :As the post in which you are being appointed is reserved for Scheduled Caste candidate, your appointment is subject to your being a member of a Scheduled Caste as listed in the "Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Lists) Modification Order 1956" read with the Scheduled Caste / Scheduled Tribe Order (Amendment) Act, 1976 and the applicable Act/constitution Order, while professing either the Hindu or Sikh Religion. Also if you were originally professing Hindu Religion (SC) and subsequently embraced Neo-Buddhism, will be appointed against the post reserved for Scheduled Caste. You should inform us of the change, if any, of your religion, immediately after such a change.
5. For Scheduled Tribes candidates only: As the post in which you are being appointed is reserved for Scheduled Tribe candidate, your appointment is subject to your being a member of a Scheduled Tribe as listed in the "Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Lists) Modification Order, 1956" read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 and the applicable Act/Constitution Order.

Correspondence Address: GSD Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai - 400099, India.





## AI AIRPORT SERVICES LIMITED

(Formerly known as AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED)

Office: 2<sup>nd</sup> Floor, GSD Building, Air India Complex, Terminal-2, IGI Airport, New Delhi-110037, India  
CIN : U63090DL2003PLC120790

6. For Other Backward Classes Candidates only: As the post in which you are being appointed is reserved for Other Backward Class candidates, your appointment is subject to your being a member of Other Backward Class as listed in OM No.36012/22/93-Estt (SCT) dated September 08, 1993 and the Government of India, Ministry of Welfare's Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated September 10, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I dated September 13, 1993. Also your appointment against the reserved post for Other Backward Classes is subject to your not belonging to the socially advanced section (creamy layer) who are excluded from the benefits of Other Backward Classes reservation. You should inform us of the change, if any, of your religion immediately after such a change.

1. The appointment is provisional and is subject to your Medical Fitness as per the procedure followed by AIASL and the Caste Certificates being verified through the proper channels and if the verification reveals that your claim belonging to Scheduled Caste / Tribe / Other Backward Class, is false, your services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false certificates.

We are referring you to undergo Pre-Employment Medical Examination. The Medical test has to be done by Government Hospital/ Medical College Hospital/ Similar Govt. Institute and the report is to be duly stamped, signed & sealed in a sealed cover by the Medical Officer. A FITNESS CERTIFICATE STATING THAT "CANDIDATE IS MEDICALLY FIT FOR THE POST" must be issued by a Government Doctor not below the rank of Assistant Civil Surgeon. The form for the same is enclosed. The Sealed envelope is to be submitted in person to In charge- HR, HRD DEPARTMENT, Address: AI Airport Services Ltd, Mumbai Airport Mumbai on any working day between 10:00 Hrs and 17:00 Hrs on or before 10.03.2023 Please note that you will be required to bear the cost of the Medical Examination. Please note that this medical examination is meant to decide your physical/ pathological fitness for the job and does not have any bearing to your final selection for the said post.

2. You will initially be on probation for a period of 6 months and if found satisfactory, the same will be communicated to you in writing. During the period of probation, your performance and attendance will be reviewed periodically. In case, if your performance and attendance is found to be unsatisfactory, your contract may be terminated without any notice. In such an event, you will have no right to claim any sum by way of compensation, damages or otherwise in respect of such termination.



## AI AIRPORT SERVICES LIMITED

(Formerly known as AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED)

Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, GSD Building, Air India Complex, Terminal-2, IGI Airport, New Delhi-110037, India  
CIN : U63090DL2003PLC120790

3. As a token of your acceptance of the above terms and conditions of employment, you are requested to sign the Acceptance Form and return it to the **undersigned within seven days** from the date of receipt of this letter together with the following documents duly filled-in / completed in all respects, in original, along with this letter and upon medically fit, your:

- a) Acceptance Form
- b) 2 Character Certificates signed by the two different Gazetted Officers
- c) Marriage Declaration Form
- d) Personal Data Form
- e) Attestation Form & signed by a Gazetted Officer
- f) 6 Recent Passport Size Colour Photographs (white background)
- g) Experience Certificates from the previous employer/s
- h) Relieving Order from the present employer (in case, you are / have been working)
- i) ECS Form
- j) PF Nomination & Declaration Form

4. At the time of joining, you are required to submit a "No Objection Certificate" from **Commissioner of Police / Dy. Commissioner of Police / Dist. Superintendent of Police of your District** and submit the same in original to us. (A letter addressed to the Commissioner of Police / Dy. Commissioner of Police / Dist. Superintendent of Police of your District, for obtaining the same is enclosed).

5. Before you are engaged in AIASL, you will be required to submit copies of your testimonials / certificates with regard to your date of birth, Educational Qualifications, Caste/Tribe, and Experience Certificates etc. and the enclosed set of:

Attestation Forms / Character Certificates / Marital Status / Personal Data Form and Acceptance Form, duly filled-in and completed in all respects.


6. You will be required to submit the set of forms mentioned above duly filled in and completed in all respects with copies of the PAN Card, Aadhar Card, and blank cancelled cheque of your bank account for salary purpose, in person on 10.03.2023 at 10.00 hrs. on following address.

AI Airport Services Ltd

Address: HR Department, CSMI Airport, Mumbai

In case you do not report on the time and venue mentioned above, it will be presumed that you are not interested in the above mentioned engagement and no further correspondence shall be entertained in the matter.

Yours faithfully,  
For AI AIRPORT SERVICES LTD.

  
Authorized Signatory



Correspondence Address: GSD Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai - 400099, India.



Government of India  
Department of Posts, India  
Office of the Superintendent of Postoffices, Bhusaval Division, Bhusaval

**OFFER OF ENGAGEMENT (PROVISIONAL)**

H-1/15/Eng./4th Cycle/BPM/Lohare/2022 dtd. at BSL the 07.09.2022

In response to the notification No. -

Shri/Smt./Ms **MORE AARTI DILIP** ..... Son / daughter of  
Shri **DILIP BHURAO MORE** ..... Whose date of Birth is **25/06/2001** ..... and belongs to  
**SC** ..... category /selected against **SC** ..... Category is informed that, you have  
been selected for provisional engagement as **GDS BPM, Lohare B.O** ..... in  
account with/ under **Khiroda S.O/Bhusawal H.O** ..... with TRCA slab **12000** .....

2. Shri/Smt./Ms **MORE AARTI DILIP** ..... Son/daughter of Shri  
**DILIP BHURAO MORE** ..... should clearly understand that his/her selection for  
provisional engagement as **GDS BPM, Lohare B.O** ..... in account  
with **Khiroda S.O/Bhusawal H.O** ..... shall be in the nature of a contract liable to  
be terminated by him/her or by the undersigned by notifying the order in writing and that  
his/her conduct and engagement shall be governed by the Department of Posts, Gramin Dak  
Sevak (Conduct and Engagement) Rules, 2020 as amended from time to time.

3. Shri/Smt./Ms **MORE AARTI DILIP** ..... is hereby informed that, you have to  
produce all the documents in originals i.e. educational certificates and other documents such  
as caste certificate, ex-Engagement certificate, persons with disability certificate, certificate of  
date of birth etc. on the day of attending the office of undersigned for verification  
through competent authority within 10 days of receipt of this letter failing which it is  
presumed that, you are not interested to join the post of **GDS BPM, Lohare B.O** .....  
and your name will be deleted from the selection list. Further, you will have no claim for  
engagement as **GDS BPM, Lohare B.O** .....

4. At the time of joining, you will have to give undertaking on bond paper of Rs.100/- that, you  
have adequate independent means of livelihood for yourself and your family and other than the  
TRCA (allowances) being paid to you by Govt.



8. The BPM will have to provide accommodation for Branch Post Office at Branch Office Village. If no accommodation is not provided by Central Govt/State Govt/Gram Panchayat or any other local body as per standard prescribed by Directorate order no 17-11/2016-GD's dated 28.06.2018 & 28.09.2018 (which has already been mentioned in notification.....). As per Rule 1 A(vii) of


GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020, you should take up residence in Post Office village within a month of selection but before engagement as it is mandatory to you by these Rules. Failure to reside in place of duty for GDS BPM after engagement shall be treated as violation of conditions of engagements and liable for disciplinary action under Rule 10 of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 resulting in removal/dismissal from engagement.

8.1 Failure to reside within the delivery jurisdiction of the Post Office for other categories of Gramin Dak Sevak after engagement shall be treated as violative of conditions of engagement and liable for disciplinary action under Rule 10 of the GDS (Conduct & Engagement) Rules, 2020 requiring removal/dismissal.

9. At present DARPAN devices are using Network Service Providers (NSPs) viz. Airtel, Voda Idea & BSNL, etc. for ensuring connectivity to Branch Post Offices. While providing accommodation for GDS BPM, it should be ensured that Network is available for any one of these NSPs.

10. You will have to furnish requisite Security Bond of Rs. 1,00,000/- (Rs. One lakhs only) for five years by remitting requisite premium per annum and application in prescribed form to concerned Postal Co-Operative Society through Drawing and Disbursing Officer.

8. You will have to furnish declaration for having knowledge of cycling. If you are having knowledge of riding a scooter or motor cycle, that may be considered as knowledge of cycling. The candidate has to submit a declaration to this effect and has to produce driving license.

  
Superintendent of Postoffices, Bhusaval  
Bhusaval Division  
Bhusaval

A copy of this memo is issued to:

I. Shri/Smt./Ms ..... **MORE AARTI DILIP** .....

..... **50,ZP PRIMARY SCHOOL ROAD,AKOLA,AKOLA,444102** .....

II. PF of the candidate

III. The **Bhusaval Division** ..... He/She

may send the application of Security Bond to Society and intimate the particulars of dispatch to this office. Charge report should be sent to this office along with following documents.

IV. Postmaster/SPM..... **Khiroda S.O/Bhusawal H.O** .....

V. Divisional Office..... **Bhusaval** ..... for information.

VI. O/C/Spare



मेल द्वारा

मुख्यालय गुजरात सीमांत, सी०सु०बल  
पो०-सी०सु०बल परिसर, चिलोडा रोड  
गौधीनगर (गुजरात)-382045

नं०.स्था (भर्ती) /सी०सु०गुज०/आ(सा०)-18/22/ OOA/1195-1196

दिनांक 22 नवम्बर 2022

प्रेषित,

Roll No. 7201715473  
Name: CHINCHOLKAR VAISHNAVI GAJANAN  
S/O : GAJANAN  
Address : AT WADGAON ROTHE POST UKALI BAZAR TQ TELHARA DIST AKOLA  
Distt-AKOLA (Maharashtra), Pin-444108  
Email : chincholkar.v1999@gmail.com

विषय:- सीमा सुरक्षा बल में कर्मचारी चयन आयोग के आधार पर आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)-2021 के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

Sub:- OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD)- 2021 IN BSF THROUGH STAFF SELECTION COMMISSION (SSC)

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में अस्थाई तौर पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के भाग-क' अनुसूची (नियम 3(VI) और 7(2) देखें) के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 में रु. 21,700/- प्रतिमाह के मूल वेतन के साथ समय-समय पर नियमानुसार लागू अन्य भत्तों के साथ आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है। महानिदेशक तथा सीमा सुरक्षा बल के समस्त सदस्यों की ओर से आपका इस 'सर्वोत्कृष्ट बल' का सदस्य बनने के लिए स्वागत है, जिसने तमाम विश्व के 'सीमा सुरक्षा बलों' की विशिष्ट मंडली में, चाहे शांतकाल हो अथवा युद्धकाल, अपना स्रष्टणीय स्थान कायम किया है।

I am directed to inform you that, you have provisionally been selected for appointment as Constable(GD) in BSF on initial Basic Pay of Rs.21,700/- per month under Level-3 in the pay matrix as per scheduled [(See Rule-3(vi) & 7(2))] Part a of CCS (Revised Pay) Rules,2016 plus other allowances admissible under rules from time. On behalf of the DG & all ranks of Border Security Force you are welcome to join "The Elite Force", which has earned an enviable position for itself in the galaxy of "Border Guarding Forces" of the world, be it in peace or in war.

2. उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी:-  
2. Your appointment to the said post is subject to the following terms and conditions:-

- क. आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम-1968 एवं सीमा सुरक्षा बल नियम-1969 तथा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर जारी किए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।  
a) You will be governed by the provisions of BSF Act 1968 and BSF Rules 1969 as amended from time to time and other relevant Central Government Orders, Rules and Regulations.
- ख. प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए आप परीवीक्षाधीन होंगे, जिसे नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपनी अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि की अधिकतम सीमा 02 वर्षों तक हो सकती है तथा ऐसा किए जाने के कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियोक्ता प्राधिकारी के मत में आप वन वर्ष दक्ष सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।  
b) Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Border Security Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason.

PTO



यह पद अस्थायी है, किन्तु भविष्य में इसे स्थाई बना दिए जाने की संभावना है। यदि अस्थायी पद का उन्मूलन हो जाता है तो ऐसे में बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।  
The post is temporary but likely to be made permanent in due course. In case the temporary post is abolished, your services shall be terminated without assigning any reason.

यदि आप अपनी सेवा के 10 वर्षों के भीतर केन्द्र या राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किए गए नौकरी के किसी ऐसे परताब को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपको केंद्र क्लियरेंस प्रदान किया गया हो, के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से सेवात्याग का आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण-लागत अथवा पिछले तीन महीने में प्राप्त वेतन एवं भत्तों में से जो भी अधिक हो, उस राशि का पूरातन किए जाने के बाद ही आपका सेवात्याग स्वीकार किया जायेगा। यदि उस समय तक आपके तीन महीनों की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के वेतन एवं भत्तों का आकलन आपको उस माह में देय वेतन एवं भत्ते के आधार पर किया जाएगा जिसमें आप सेवात्याग कर रहे हैं।

If you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central or State Govt. or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation may be accepted only after you refund the training cost or 3 months' pay and allowances last drawn by you to the Govt. or if you do not complete three months service, on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation, whichever is higher.

3. निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई हो प्रस्तुत करना होगा:-  
3. You will be required to produce following original documents along with a photocopy of each attested by a Gazetted Officer at the time of completing appointment formalities:-

- समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई।  
Original certificate of education along with photo copies of all certificates duly attested by GO.
- आयु-प्रमाण के रूप में मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष शिक्षा का प्रमाण-पत्र।  
Matriculation or equivalent certificate as proof of age.
- दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार।  
Character certificate from two Gazetted Officers as per proforma attached.
- यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा कर रहे हैं तो उसके तर्फी में विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, होना चाहिए।  
Certificate in the prescribed format issued by notified competent authority in support of your claim of belonging to Schedule Caste, Schedule Tribe or OBC.
- यदि आप किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन में सेवा करते हैं तो, आपको मूल विभाग द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।  
If you are serving in Govt/Semi-Govt service, discharge/release certificate from parent department in the prescribed format.
- पासपोर्ट आकार के तीन फोटोग्राफ।  
Three passport size photographs.
- अधिवास/निवास प्रमाण पत्र।  
Domicile/residential certificate.
- पैन कार्ड।  
Pan card.
- जाधार कार्ड।  
Aadhar Card.
- बैंक अकाउंट नंबर, बैंक बुक के साथ बैंक के साथ सही प्रक्रिया पूर्ण करके लाए।  
Bank Account Number, Cheque book with completing all bank KYCs procedure.

- उ. आपके पास दो से तीन माह के स्वयं के खर्च हेतु 10,000/- रुपये होना चाहिए।  
k) Individual to bring Rs.10, 000/- for own expense up to two or three months.  
ड) स्थाई मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी.  
l) Permanent mobile number and E-mail I.D.

आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता एवं एटीएम कार्ड होना अतिआवश्यक है जिसमें आपके वेतन व भत्तों का वितरण किया जा सके।  
**You must have your own SBI account and ATM Card for disbursement of pay and allowances to your account.**

4. पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए आपको यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।  
4. You will not be entitled for any TA/DA on joining your first appointment.  
5. यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्नलिखित के अधीन होगा:-  
5. This offer of appointment is further subject to:-  
क. सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 का उपबंध जिसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति उस में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।  
a) Provision of Rule 7 of BSF Rules-1969 that envisage that a person who has entered into or contracted a marriage with any person having spouse living or who having a spouse has entered into or contracted a marriage with any person shall not be eligible for appointment in the Force.  
ख. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/वफादारी का शपथ-ग्रहण (या विहित फॉर्म में की गई इस आशय की घोषणा)  
b) Taking an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or making affirmation to that effect in the prescribed form).  
ग. उपरोक्त में किसी भी शर्त के पूरा होने की स्थिति में, आपके द्वारा दायर किसी भी क्षति अथवा नुकसान के दावे पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।  
c) In case any of above conditions is not fulfilled, the Department will not entertain any claim for damages and other losses suffered by you.  
6. आपको एक निश्चित अवधि के लिए बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। यदि बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको बल में आगे की सेवा हेतु अयोग्य समझा जायेगा।  
6. You will be put through prescribed course of Basic Training for a specific period. Failure in Basic Recruit Training shall render you unfit for further retention in the Force.  
7. इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग अथवा विदेश में सेवा का दायित्व समाहित है।  
7. You shall be liable to serve in any part of India or abroad.  
8. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा ऊपर दी गई शर्तों, चरित्र, पूर्ववृत्त व जाति/जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन के अधिन है। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि आपका कोई भी दावा / सूचना झूठी है तो आपकी सेवाएँ बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण पत्र / सूचना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आगे जो कार्यवाही की जा सकती है, उसको प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।  
8. The appointment is provisional and subject to the conditions mentioned above and your character and antecedents, education and the caste/tribe/OBC certificates being verified. If the verification reveals that any of your claim/information is false, your service shall be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may take under the provisions of Indian Penal Code/BSF Act & Rules.  
9. यदि आपके द्वारा की गई घोषणा/दी गई सूचना झूठी पाई जाती है और यह प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है तो आपके विरुद्ध सीसुबल अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।  
9. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to face action under the provisions of BSF Act & Rules.



10. आप कर्मचारी 2014 से केंद्रीय सेवा में तदनुसंगित लोगों के लिए लागू नई पुनर्गठित परिचालित कर्मचारी नियम प्रणाली के अनुसंग नियम के लागू होने के इंतजार करेंगे। अतः आपको कर्मचारी नियुक्ति की तिथि से पहले केंद्र तक बतौर कर्मचारी सेवा से 10% के बचत की शर्तों का अनुसंगित नवीन नियम प्रणाली में करना होगा।  
10. You will be entitled to the pensionary benefits as per new restructured defined **CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM** applicable for new entrants to the Central Govt. service from Jan 2014. Therefore, you would make monthly contribution @ 10% of the Basic pay and DA towards the new pension system from the date of appointment.

11. यदि आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने तथा शर्तों की पूर्ति के लिए आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को कार्यालय, कमांडेंट, 102 बयलिवन रोड मुद्रा रोड, मुद्रा रोड पो-भरपर बी.ओ. जिला-कच्छ, राज्य-गुजरात पिन-370427 को रिपोर्ट करें।


11. If you accept this offer of appointment, you will report to **Office of the Commandant, 102 Bn BSE, MUDRA ROAD, PO-BHARAPAR B.O. Distt-KUTCHH (GUJARAT) Pin - 370427 on 21 Dec 2022 (21.12.2022)** for completion of enrolment formalities and further duties.

12. यदि आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को उपरोक्त कार्यालय पर उपरोक्त नहीं करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जाएगा।

12. If you fail to join at above mentioned address on 21<sup>st</sup> Dec 2022 (21.12.2022), this Offer of Appointment will stand cancelled automatically.

संलग्नक:- चरित्र प्रमाण पत्र का प्रस्ताव

Encl:- Character Certificate proforma

  
पीठासीन अधिकारी

सीमांत मुख्यालय सी.मु.बल, गुजरात

प्रतिनिधि:-

1. कमांडेंट 102 वीं बयलिवन सी.मु.बल

: अपने सूचनाएं एवं निर्देश दिया जाता है कि उम्मीदवार के अंशगत के पश्चात् सूत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरान्त औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करें।

2. जिले कार्यालय (2154) अजमेर



Tele : 0712-2558020



Army Recruiting Office  
Nagpur  
PIN-900419  
c/o 56 APO

12

D/5/Desp

30 Nov 2022

RMDS No : ~~2956~~ 2956  
Roll No : PUN/NAG/AGD/131122/140340  
Name : AMBHORE SANGAM VILAS  
Father's Name : VILAS AMRUTA AMBHORE  
Village : SONALA  
Post : BORGADN MANJU  
Tehsil : AKOLA  
Distt : AKOLA  
State : MAHARASHTRA  
PIN : 444102

**CALL UP LETTER : ENROLMENT INTO ARMY**


Dear candidate,


1. You have been provisionally selected for recruitment in Indian Army as Agniveer GD (Category) on the basis of your overall performance and merit.

2. You are advised to report to this office on 05 Dec 2022 (date) at 0700 (AM) (time) alongwith following documents in original and three Xerox copies of each duly attested for enrolment formalities: -

- All education Board Certificates and Mark Sheets.
- School Leaving/Transfer Certificate.
- Character certificate issued by School/ Collage where the candidate last studied.
- Verification of antecedents of student from School/College.
- Domicile Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate.
- Caste Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate. In case of 'Open Category', bring Affidavit for the same duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Magistrate.
- Character verification from superintendent of police duly affixed photograph.
- Sarpanch/Nagarsevak Dakhla/Character certificate with two witnesses issued within last six months.
- Family details alongwith family photograph affixed on reverse side duly signed by Sarpanch/Nagarsevak.
- Unmarried certificate issued within last six months.
- Affidavits regarding variation of names in all documents duly signed by the Executive Magistrate/ 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Affidavit regarding Personal Particulars, Permanent & Postal address and non involvement in any criminal case duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Affidavit for Son of Ex-Serviceman from 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Any other certificate i.e NCC/ITI/Sports/Relationship Certificate.
- In case of son of Ex-serviceman, bring Relationship Certificate and Photocopy of Discharge Book.
- Photocopy of self Aadhar Card, PAN Card and Bank account Pass book.
- Photocopy of ID proof of parents/brother/sister (Aadhar Card & 10<sup>th</sup> class Board Certificate / Birth certificate).
- Death certificate of parents as applicable.
- Photocopy of LMV Driving License if provided during rally (for GD Cat only).
- 16 (Sixteen) passport size (3.5cm x 5cm) latest photographs.
- 3 (Three) family photo (size 5cm x 5cm).

3. Your candidature will automatically be cancelled at the time of despatch, if any discrepancy is found in medical/physical/lack of production of documents/producing of fake documents/hiding of facts.


Recd   
30/11/2022

  
Col  
Dir Rtg  
ARO Nagpur

Tele : 0712-2558020

13  
Army Recruiting Office  
Nagpur  
PIN-900419  
c/o 56 APO

30 Nov 2022



D/5/Desp

RMDS No > 3236  
Roll No > PUN/NAG/AG-D/191122/146317  
Name > BDLANKE SUMIT JAYBINI  
Father's Name > JAYBINI  
Village > CHANDUR  
Post > AT, POST, CHANDUR  
Tehsil > AKOLA  
Distt > AKOLA  
State > MAHARASHTRA  
PIN > 444004


**CALL UP LETTER : ENROLMENT INTO ARMY**

Dear candidate,


1. You have been provisionally selected for recruitment in Indian Army as Agrievor GD (Category) on the basis of your overall performance and merit.
2. You are advised to report to this office on 05 Dec 2022 (date) at 0700 (AM) (time) alongwith following documents in original and three Xerox copies of each duly attested for enrolment formalities. -

- (a) All education Board Certificates and Mark Sheets.
- (b) School Leaving/Transfer Certificate.
- (c) Character certificate issued by School/ Collage where the candidate last studied.
- (d) Verification of antecedents of student from School/Collage.
- (e) Domicile Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate.
- (f) Caste Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate. In case of 'Open Category', bring Affidavit for the same duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Magistrate.
- (g) Character verification from superintendent of police duly affixed photograph.
- (h) Sarpanch/Nagarsevak Dakhla/Character certificate with two witnesses issued within last six months.
- (i) Family details alongwith family photograph affixed on reverse side duly signed by Sarpanch/Nagarsevak.
- (j) Unmarried certificate issued within last six months.
- (k) Affidavits regarding variation of names in all documents duly signed by the Executive Magistrate/ 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- (l) Affidavit regarding Personal Particulars, Permanent & Postal address and non involvement in any criminal case duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- (m) Affidavit for Son of Ex-Serviceman from 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- (n) Any other certificate i.e NCC/ITI/Sports/Relationship Certificate.
- (o) In case of son of Ex-serviceman, bring Relationship Certificate and Photocopy of Discharge Book.
- (p) Photocopy of self Aadhar Card, PAN Card and Bank account Pass book.
- (q) Photocopy of ID proof of parents/brother/sister (Aadhar Card & 10<sup>th</sup> class Board Certificate / Birth certificate).
- (r) Death certificate of parents as applicable.
- (s) Photocopy of LMV Driving License if provided during rally (for GD Cat only).
- (t) 16 (Sixteen) passport size (3.5cm x 5cm) latest photographs.
- (u) 3 (Three) family photo (size 5cm x 5cm).

3. Your candidature will automatically be cancelled at the time of despatch, if any discrepancy is found in medical/physical/lack of production of documents/producing of fake documents/hiding of facts.

Recd 

30/11/2022

  
Col  
Dir Rtg  
ARO Nagpur



Tele : 0712-2558020



Army Recruiting Office  
Nagpur  
PIN-900419  
505 56 APO

30 Nov 2022

14

D/S/Desp

RMDS No : 2435  
Roll No : DUN/NAG/AGD/337122/140201  
Name : MANKAR SHIVAM RAMRAO  
Father's Name : RAMRAO MAHADEO MANKAR  
Village : WADEGAON  
Post : WADEGAON  
Tehsil : DALAPUR  
Distt : AKOLA  
State : MAHARASHTRA  
PIN : 444502

**CALL UP LETTER : ENROLMENT INTO ARMY**

Dear candidate,

1. You have been provisionally selected for recruitment in Indian Army as Agniveer GD (Category) on the basis of your overall performance and merit.

2. You are advised to report to this office on 05 Dec 2022 (date) at 0700 (AM) (time) alongwith following documents in original and three Xerox copies of each duly attested for enrolment formalities: -

- All education Board Certificates and Mark Sheets.
- School Leaving/Transfer Certificate.
- Character certificate issued by School/ Collage where the candidate last studied.
- Verification of antecedents of student from School/College.
- Domicile Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate.
- Caste Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate. In case of 'Open Category', bring Affidavit for the same duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Magistrate.
- Character verification from superintendent of police duly affixed photograph.
- Sarpanch/Nagarsevak Dakhla/Character certificate with two witnesses issued within last six months.
- Family details alongwith family photograph affixed on reverse side duly signed by Sarpanch/Nagarsevak.
- Unmarried certificate issued within last six months.
- Affidavits regarding variation of names in all documents duly signed by the Executive Magistrate/ 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Affidavit regarding Personal Particulars, Permanent & Postal address and non involvement in any criminal case duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Affidavit for Son of Ex-Serviceman from 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- Any other certificate i.e NCC/ITI/Sports/Relationship Certificate.
- In case of son of Ex-serviceman, bring Relationship Certificate and Photocopy of Discharge Book.
- Photocopy of self Aadhar Card, PAN Card and Bank account Pass book.
- Photocopy of ID proof of parents/brother/sister (Aadhar Card & 10<sup>th</sup> class Board Certificate / Birth certificate).
- Death certificate of parents as applicable.
- Photocopy of LMV Driving License if provided during rally (for GD Cat only).
- 16 (Sixteen) passport size (3.5cm x 5cm) latest photographs.
- 3 (Three) family photo (size 5cm x 5cm).

3. Your candidature will automatically be cancelled at the time of despatch, if any discrepancy is found in medical/physical/lack of production of documents/producing of fake documents/hiding of facts.

Recd [Signature]  
30/11/2022

[Signature]  
Col. [Signature]  
Dir. Rtg.  
ARO Nagpur



Tele : 0712-2558020



Army Recruiting Office  
Nagpur  
PIN-900419  
c/o 56 APO

15

D/5/Desp

30 Nov 2022

RMDS No : 2582.  
Roll No : PUN/NAG/AGD/301122/141060  
Name : SHELAR OM VINAYAK.  
Father's Name : VINAYAK RAMCHANDRA SHELAR.  
Village : DIMPALKUTHA.  
Post : ALANDA  
Tehsil : SARSHITAKLE  
Distt : AKOLA  
State : MAHARASHTRA  
PIN : 444601

**CALL UP LETTER : ENROLMENT INTO ARMY**

Dear candidate,

1. You have been provisionally selected for recruitment in Indian Army as Agniveer GD (Category) on the basis of your overall performance and merit.

2. You are advised to report to this office on 05 Dec 2022 (date) at 0700 (AM) (time) alongwith following documents in original and three Xerox copies of each duly attested for enrolment formalities: -

- ✓(a) All education Board Certificates and Mark Sheets.
- ✓(b) School Leaving/Transfer Certificate.
- (c) Character certificate issued by School/ Collage where the candidate last studied.
- (d) Verification of antecedents of student from School/College.
- ✓(e) Domicile Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate.
- ✓(f) Caste Certificate issued by Tehsildar/District Magistrate. In case of 'Open Category', bring Affidavit for the same duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Magistrate.
- ✓(g) Character verification from superintendent of police duly affixed photograph.
- (h) Sarpanch/Nagarsevak Dakhla/Character certificate with two witnesses issued within last six months.
- (i) Family details alongwith family photograph affixed on reverse side duly signed by Sarpanch/Nagarsevak.
- (j) Unmarried certificate issued within last six months.
- ✓(k) Affidavits regarding variation of names in all documents duly signed by the Executive Magistrate/ 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- ✓(l) Affidavit regarding Personal Particulars, Permanent & Postal address and non involvement in any criminal case duly signed by Executive Magistrate/1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- (m) Affidavit for Son of Ex-Serviceman from 1<sup>st</sup> Class Judicial Magistrate.
- ✓(n) Any other certificate i.e NCC/ITI/Sports/Relationship Certificate.
- (o) In case of son of Ex-serviceman, bring Relationship Certificate and Photocopy of Discharge Book.
- ✓(p) Photocopy of self Aadhar Card, PAN Card and Bank account Pass book.
- (q) Photocopy of ID proof of parents/brother/sister (Aadhar Card & 10<sup>th</sup> class Board Certificate / Birth certificate).
- (r) Death certificate of parents as applicable.
- (s) Photocopy of LMV Driving License if provided during rally (for GD Cat only).
- ✓(t) 16 (Sixteen) passport size (3.5cm x 5cm) latest photographs.
- ✓(d) 3 (Three) family photo (size 5cm x 5cm).

3. Your candidature will automatically be cancelled at the time of despatch, if any discrepancy is found in medical/physical/lack of production of documents/producing of fake documents/hiding of facts.

Recd G/S Shelar  
30/11/22.

Col. [Signature]  
Dir R&G  
ARO Nagpur

मेल द्वारा

मुख्यालय गुजरात सीमांत, सी०मु०बल  
पो०-सी०मु०बल परिसर, विलोडा रोड  
मोदीनगर (गुजरात)-382045

नं०.म्बा (भर्ती) / सी०मु०गुज०/आ(सा०)-18/22/ OOA/1197-1198

दिनांक 22 नवम्बर 2022

प्रेषित,

Roll No. 7201717055  
Name: UNHALE ARPITA SUDHAKAR  
S/O: SUDHAKAR PRALHAD UNHALE  
Address: AT POST MHAISPUR TQ DIST AKOLA  
Distt -AKOLA (Maharashtra), Pin-444001  
Email: unhalearpita@gmail.com

विषय:- सीमा सुरक्षा बल में कर्मचारी चयन आयोग के आधार पर आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)-2021 के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

Sub:- OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD)- 2021 IN BSF THROUGH STAFF SELECTION COMMISSION (SSC)

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में अस्थाई तौर पर केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के भाग-'क' अनुसूची (नियम 3(VI) और 7(2) देखें) के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 में रु. 21,700/- प्रतिमाह के मूल वेतन के साथ समय-समय पर नियमानुसार लागू अन्य भत्तों के साथ आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है। महानिदेशक तथा सीमा सुरक्षा बल के समस्त सदस्यों की ओर से आपको इस "सर्वोत्कृष्ट बल" का सदस्य बनने के लिए स्वागत है, जिसने तमाम विश्व के "सीमा सुरक्षा बलों" की विशिष्ट मंडली में, चाहे शांतकाल हो अथवा युद्धकाल, अपना स्पृहणीय स्थान कायम किया है।

I am directed to inform you that, you have provisionally been selected for appointment as Constable(GD) in BSF on initial Basic Pay of Rs.21,700/- per month under Level-3 in the pay matrix as per scheduled [(See Rule-3(vi) & 7(2)] Part a of CCS (Revised Pay) Rules,2016 plus other allowances admissible under rules from time. On behalf of the DG & all ranks of Border Security Force you are welcome to join "The Elite Force", which has earned an enviable position for itself in the galaxy of "Border Guarding Forces" of the world, be it in peace or in war.

2. उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी:-

2. Your appointment to the said post is subject to the following terms and conditions:-

- आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम-1968 एवं सीमा सुरक्षा बल नियम-1969 यथा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर जारी किए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।  
You will be governed by the provisions of BSF Act 1968 and BSF Rules 1969 as amended from time to time and other relevant Central Government Orders, Rules and Regulations.
- प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए आप परिबीताधीन होंगे, जिसे नियोक्त प्राधिकारी द्वारा अगली अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष तक हो सकती है तथा ऐसा किए जाने के कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। परिबीताधीन अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियोक्त प्राधिकारी के मत में आप बल का दक्ष सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।  
Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Border Security Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason.

PTO



- ग. यह पद अस्थायी है, किन्तु भविष्य में इसे स्थाई बना दिए जाने की संभावना है। यदि अस्थाई पद का उन्मूलन हो जाता है तो ऐसे में बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- c) The post is temporary but likely to be made permanent in due course. In case the temporary post is abolished, your services shall be terminated without assigning any reason.
- घ. यदि आप अपनी सेवा के 10 वर्षों के भीतर केन्द्र या राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किए गए नौकरी के किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपको कैडर क्लियरेंस प्रदान किया गया हो, के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से सेवात्याग का आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण-लागत अथवा पिछले तीन महीने में प्राप्त वेतन एवं भत्तों में से जो भी अधिक हो, उस राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही आपका सेवात्याग स्वीकार किया जायेगा। यदि उस समय तक आपके तीन महीनों की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के वेतन एवं भत्तों का आकलन आपको उस माह में देय वेतन एवं भत्ते के आधार पर किया जाएगा जिसमें आप सेवात्याग कर रहे हैं।
- d) If you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central or State Govt. or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation may be accepted only after you refund the training cost or 3 months' pay and allowances last drawn by you to the Govt. or if you do not complete three months service, on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation, whichever is higher.
3. नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई हो प्रस्तुत करना होगा:-
3. You will be required to produce following original documents along with a photocopy of each attested by a Gazetted Officer at the time of completing appointment formalities:-
- क. सनस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई।
- a) Original certificate of education along with photo copies of all certificates duly attested by GO.
- ख. आयु प्रमाण के रूप में मेट्रिक अथवा उसके समकक्ष शिक्षा का प्रमाण-पत्र।
- b) Matriculation or equivalent certificate as proof of age.
- ग. दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार।
- c) Character certificate from two Gazetted Officers as per proforma attached.
- घ. यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा कर रहे हैं तो उसके समर्थन में विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत सहाय अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, होना चाहिए।
- d) Certificate in the prescribed format issued by notified competent authority in support of your claim of belonging to Schedule Caste, Schedule Tribe or OBC.
- च. यदि आप किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन में सेवारत हैं तो, आपको मूल विभाग द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- e) If you are serving in Govt/Semi-Govt service, discharge/release certificate from parent department in the prescribed format.
- छ. पासपोर्ट आकार के तीन फोटोग्राफ।
- f) Three passport size photographs.
- ज. अधिवास/निवास प्रमाण पत्र।
- g) Domicile/residential certificate.
- झ. पैन कार्ड।
- h) Pan card.
- ञ. आधार कार्ड।
- i) Aadhar Card.
- ट. बैंक अकाउंट नंबर, बैंक बुक के साथ बैंक के वाय.सी प्रक्रिया पूर्ण करके लाए।
- ड. Bank Account Number, Cheque book with completing all bank KYCs procedure.

- 3) Individual to bring Rs.10,000/- for own expense up to two or three months.  
 4) स्थाई मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी.  
 Permanent mobile number and E-mail I.D.

आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता एवं एटीएम कार्ड होना अतिआवश्यक है जिसमें आपके वेतन व भत्तों का वितरण किया जा सके।  
**You must have your own SBI account and ATM Card for disbursement of pay and allowances to your account.**

4. पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए आपको यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।  
 You will not be entitled for any TA/DA on joining your first appointment.
5. यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्नलिखित के अधीन होगा:-  
 This offer of appointment is further subject to:-
- क. सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 का उपबंध जिसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।  
 Provision of Rule 7 of BSF Rules-1969 that envisage that a person who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living or who having a spouse has entered into or contracted a marriage with any person shall not be eligible for appointment in the Force.
- ख. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/वफादारी का शपथ-ग्रहण (या विहित फॉर्म में की गई इस आश्चय की घोषणा)  
 Taking an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or making affirmation to that effect in the prescribed form).
- ग. उपरोक्त में किसी भी शर्त के पूरा होने की स्थिति में, आपके द्वारा दायर किसी भी क्षति अथवा नुकसान के दावे पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।  
 In case any of above conditions is not fulfilled, the Department will not entertain any claim for damages and other losses suffered by you.
6. आपको एक निश्चित अवधि के लिए बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। यदि बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको बल में आगे की सेवा हेतु अयोग्य समझा जायेगा।  
 You will be put through prescribed course of Basic Training for a specific period. Failure in Basic Recruit Training shall render you unfit for further retention in the Force.
7. इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग अथवा विदेश में सेवा का दायित्व समाहित है।  
 You shall be liable to serve in any part of India or abroad.
8. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा ऊपर दी गई शर्तों, चरित्र, पूर्ववृत्त व जाति/जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि आपका कोई भी दावा / सूचना झूठी है तो आपकी सेवाएँ बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण पत्र / सूचना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आगे जो कार्यवाही की जा सकती है, उसको प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के, तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।  
 The appointment is provisional and subject to the conditions mentioned above and your character and antecedents, education and the caste/tribe/OBC certificates being verified. If the verification reveals that any of your claim/information is false, your service shall be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may take under the provisions of Indian Penal Code/BSF Act & Rules.
9. यदि आपके द्वारा की गई घोषणा/दी गई सूचना झूठी पाई जाती है और यह प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है तो आपके विरुद्ध सीसुबल अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।  
 If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to face action under the provisions of BSF Act & Rules.



10. आप जनवरी 2004 से केंद्रीय सेवा में तब प्रवेशित लोगों के लिए लागू नई पुनर्गठित "परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अंतर्गत पेंशन के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। अतः आपको अपनी नियुक्ति की तिथि से अपने वेतन तथा महंगाई भत्ता के 10% के बराबर की राशि का अंशदान नवीन पेंशन प्रणाली में करना होगा।

10. You will be entitled to the pensionary benefits as per new restructured defined CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM applicable for new entrants to the Central Govt. service from Jan 2004. Therefore, you would make monthly contribution @ 10% of the Basic pay and DA towards the new pension system from the date of appointment.

11. यदि आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की औपचारिकतायें पूरी करने तथा आगे की छुट्टी के लिए आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को कार्यालय, कमांडेंट, 102 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, मुन्द्रा रोड पोस्ट-भरपर बी ओ, जिला-कच्छ, राज्य-गुजरात पिन-370427 को रिपोर्ट करें।

11. If you accept this offer of appointment, you will report to Office of the Commandant, 102 Bn BSF, Mundra Road, PO-Bharapar BO., Distt-Kutchh (Gujarat) Pin - 370427 on 21 Dec 2022 (21.12.2022) for completion of enrolment formalities and further duties.

12. यदि आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को उपरोक्त दर्शाये गये पते पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा।

12. If you fail to join at above mentioned address on 21<sup>st</sup> Dec 2022 (21.12.2022), this Offer of Appointment will stand cancelled automatically.

संलग्नक:- चरित्र प्रमाण पत्र का पारूप

Encl: - Character Certificate proforma

मीठासीन अधिकारी

सीमांत मुख्यालय सी०सु०बल, गुजरात

प्रतिलिपि:-

1. कमांडेंट 102वीं बाहिनी सी०सु०बल

बास्ते सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि उम्मीदवार के आगमन के पश्चात् मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरांत औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करें।

2. हिन्दी गार्ड फाईल (2154 शब्द)

